

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2507]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2010/अग्रहायण 24, 1932

No. 2507]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2010/AGRAHAYANA 24, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2950(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आन्ध्र प्रदेश राज्य के नलगोन्डा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 के 40.000 कि.मी. से 62.290 कि.मी. तक के भूखण्ड (हैदराबाद-विजयवाड़ा सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी/भूमि अर्जन अधिकारी, भोंगीर मंडल को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आन्ध्र प्रदेश राज्य के नलगोन्डा जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के कि.मी.40.000 से कि.मी.62.290 तक (हैदराबाद-विजयवाडा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	नलगोन्डा	छोटुप्पल	(1) मलकापुरम	16	निजी	शुष्क	505.85800
				17	निजी	शुष्क	910.54300
				21	निजी	शुष्क	50.58575
				22	निजी	शुष्क	303.51400
				26	निजी	शुष्क	910.54400
				27	निजी	शुष्क	3692.75925
				34	निजी	शुष्क	202.34250
				55	निजी	शुष्क	1416.40100
				56	निजी	शुष्क	404.68600
				57	निजी	शुष्क	809.37150
				758	निजी	शुष्क	1821.08600
				759	निजी	शुष्क	202.34300
				185	निजी	शुष्क	505.85700
				184	निजी	शुष्क	1112.88650
				170	निजी	नम	303.51450
				176	निजी	नम	303.51450
				177	निजी	नम	151.75675
				14	निजी	शुष्क	202.34300
				58	निजी	शुष्क	101.17150
				756	निजी	शुष्क	404.68600
				382	निजी	शुष्क	303.51450
				383	निजी	शुष्क	1416.40100
				384	निजी	शुष्क	809.37200
				757	सरकारी (सीलिंग भूमि)	शुष्क	1011.71500
			(2) कैरथापूर	52	निजी	शुष्क	607.02900
				57	निजी	शुष्क	505.85700
				72	निजी	शुष्क	505.85650
				73	निजी	शुष्क	809.37200
				80	निजी	शुष्क	1214.05800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				82	निजी	शूष्क	101.17150
			(3) वैलगिरी	122	निजी	शूष्क	1214.05800
				151	निजी	शूष्क	505.85750
				156	निजी	शूष्क	202.34250
				128	निजी	शूष्क	202.34250
			(4) डी.नागाराम	10	निजी	शूष्क	1821.08600
				11	निजी	शूष्क	4046.86000
				494	निजी	शूष्क	1922.25800
				698	निजी	शूष्क	101.17150
				493	सरकारी (खराज खाता)	शूष्क	607.02700
				495	निजी	शूष्क	607.02900
			(5) धरमोजीगुडम	99	निजी	शूष्क	303.51400
				101	निजी	शूष्क	303.51450
			(6) लक्काराम	84	निजी	नम	505.84450
				118	निजी	नम	505.85350
				119	निजी	नम	303.51050
				124	निजी	शूष्क	1214.04450
				132	निजी	शूष्क	607.02900
				133	निजी	शूष्क	101.17150
				134	निजी	शूष्क	303.51350
				152	निजी	शूष्क	202.34200
				175	निजी	शूष्क	1719.83700
				129	सरकारी (पोरम्बोकु)	शूष्क	1315.18550
			(7) छोटटुप्पल	222	निजी	नम	910.53700
				229	निजी	नम	404.70100
				231	निजी	नम	404.68300
				232	निजी	नम	508.85600
				234	निजी	नम	101.16750
				237	निजी	शूष्क	101.16850
				239	निजी	शूष्क	202.33850
				243	निजी	शूष्क	101.16800
				255	निजी	शूष्क	1315.21950
				256	निजी	शूष्क	202.33700
				257	निजी	शूष्क	1112.87600
				258	निजी	शूष्क	1719.90350

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				284	निजी	नम	910.54150
				285	निजी	नम	1011.70900
				287	निजी	नम	404.68200
				288	निजी	नम	202.34000
				349	निजी	नम	303.51250
				350	निजी	नम	910.53350
				352	निजी	शूष्क	303.51450
				358	निजी	शूष्क	202.33800
				228	सरकारी	शूष्क	4148.00800
				246	सरकारी (सीलिंग भूमि)	शूष्क	1416.39650
				294	सरकारी	शूष्क	100.33000
				297	सरकारी	शूष्क	276.75450
				323	सरकारी	शूष्क	1011.70050
				355	सरकारी	शूष्क	101.16450
			(8) लिंगोजीगुडम	227	निजी	शूष्क	1214.05800
				229	निजी	शूष्क	404.68500
				284	निजी	शूष्क	151.75675
				294	निजी	शूष्क	709.03000
				295	निजी	शूष्क	708.19600
				296	निजी	शूष्क	101.16900
				314	निजी	शूष्क	202.30300
				315	निजी	शूष्क	50.57875
			(9) पैथांगी	329	निजी	शूष्क	354.09980
				330	निजी	शूष्क	910.54200
				331	निजी	शूष्क	1011.71000
				332	निजी	शूष्क	3844.50750
				333	निजी	शूष्क	505.85450
				335	निजी	शूष्क	1466.98180
				336	निजी	शूष्क	3186.89780
				546	निजी	शूष्क	202.33550
				551	निजी	शूष्क	101.58700
				554	निजी	शूष्क	15681.57400
				555	निजी	शूष्क	9813.63100
				556	निजी	शूष्क	3136.31350
				663	निजी	शूष्क	1214.04900
				664	निजी	शूष्क	101.17050

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				614	निजी	शूष्क	202.34300
				615	निजी	शूष्क	505.85750
				307	निजी	शूष्क	13354.63800
				308	निजी	शूष्क	1315.22950
				557	निजी	शूष्क	26203.41900
				611	निजी	शूष्क	16187.44000
				612	निजी	शूष्क	404.68600
				640	निजी	शूष्क	151.75725

[फा. सं. भारराप्रा/बीओटी/11012/2010/हैदराबाद-बीओटी-9 गाँव]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2010

S.O. 2950(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.9 on the stretch of land from km.40.000 to km.62.290 (Hyderabad - Vijayawada Section) in District Nalgonda in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Revenue Divisional Officer / Land Acquisition Officer, Bhongir Division, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

4773 GI/10-2

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km.40.000 to km.62.290 (Hyderabad - Vijayawada Section) of the National Highway No.9 in the State of Andhra Pradesh

Serial number	Name of the district	Name of the taluk/mandal	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nalgonda	Dhouthuppal	(1) Malkapuram	16	Private	Dry	505.85800
				17	Private	Dry	910.54300
				21	Private	Dry	50.58575
				22	Private	Dry	303.51400
				26	Private	Dry	910.54400
				27	Private	Dry	3692.75925
				34	Private	Dry	202.34250
				55	Private	Dry	1416.40100
				56	Private	Dry	404.68600
				57	Private	Dry	809.37150
				758	Private	Dry	1821.08600
				759	Private	Dry	202.34300
				185	Private	Dry	505.85700
				184	Private	Dry	1112.88650
				170	Private	Wet	303.51450
				176	Private	Wet	303.51450
				177	Private	Wet	151.75675
				14	Private	Dry	202.34300
				58	Private	Dry	101.17150
				756	Private	Dry	404.68600
				382	Private	Dry	303.51450
				383	Private	Dry	1416.40100
				384	Private	Dry	809.37200
				757	Govt. (Ceiling Land)	Dry	1011.71500
			(2) Khairathapur	52	Private	Dry	607.02900
				57	Private	Dry	505.85700
				72	Private	Dry	505.85650
				73	Private	Dry	809.37200
				80	Private	Dry	1214.05800
				82	Private	Dry	101.17150
			(3) Yellagiri	122	Private (Choutha Inam)	Dry	1214.05800
				151	Private	Dry	505.85750
				156	Private	dry	202.34250
				124	Govt.	Dry	202.34250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) D.Nagaram	10	Private	Dry	1821.08600
				11	Private	Dry	4046.86000
				494	Private (Dasgard Inam)	Dry	1922.25800
				698	Private (Dasgard Inam)	Dry	101.17150
				493	Govt. (kharaj kata)	Dry	607.02700
				495	Private	Dry	607.02900
			(5) Dharmojigudem	99	Private	Dry	303.51400
				101	Private	Dry	303.51450
			(6) Lakkaram	84	Private	Wet	505.84450
				118	Private	Wet	505.85350
				119	Private	Wet	303.51050
				124	Private	Dry	1214.04450
				132	Private	Dry	607.02900
				133	Private	Dry	101.17150
				134	Private	Dry	303.51350
				152	Private	Dry	202.34200
				175	Private	Dry	1719.83700
				129	Govt. (Poramboke)	Dry	1315.18550
			(7) Choutuppal	222	Private	Wet	910.53700
				229	Private (Dasgard Inam)	Wet	404.70100
				231	Private (Mafi Inam)	Wet	404.68300
				232	Private	Wet	508.85600
				234	Private	Wet	101.16750
				237	Private	Dry	101.16850
				239	Private	Dry	202.33850
				243	Private	Dry	101.16800
				255	Private	Dry	1315.21950
				256	Private	Dry	202.33700
				257	Private	Dry	1112.87600
				258	Private	Dry	1719.90350
				284	Private	Wet	910.54150
				285	Private	Wet	1011.70900
				287	Private (Mafi Inam)	Wet	404.68200
				288	Private	Wet	202.34000
				349	Private	Wet	303.51250
				350	Private	Wet	910.53350
				352	Private	Dry	303.51450
				358	Private	Dry	202.33800
				228	Govt	Dry	4148.00800
				246	Govt (Ceiling land)	Dry	1416.39650
				294	Govt	Dry	100.33000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				297	Govt	Dry	276.75450
				323	Govt	Dry	1011.70050
				355	Govt	Dry	101.16450
			(8) Lingoigudem	227	Private	Dry	1214.05800
				229	Private	Dry	404.68500
				284	Private	Dry	151.75675
				294	Private	Dry	709.03000
				295	Private	Dry	708.19600
				296	Private	Dry	101.16900
				314	Private	Dry	202.30300
				315	Private	Dry	50.57875
			(9) Panthangi	329	Private	Dry	354.09980
				330	Private	Dry	910.54200
				331	Private	Dry	1011.71000
				332	Private	Dry	3844.50750
				333	Private	Dry	505.85450
				335	Private	Dry	1466.98180
				336	Private	Dry	3186.89780
				546	Private	Dry	202.33550
				551	Private	Dry	101.58700
				554	Private	Dry	15681.57400
				555	Private	Dry	9813.63100
				556	Private	Dry	3136.31350
				663	Private	Dry	1214.04900
				664	Private	Dry	101.17050
				614	Private	Dry	202.34300
				615	Private	Dry	505.85750
				307	Private	Dry	13354.63800
				308	Private	Dry	1315.22950
				557	Private	Dry	26203.41900
				611	Private	Dry	16187.44000
				612	Private	Dry	404.68600
				640	Private	Dry	151.75725

[F. No. NHAI/BOT/11012/2010/Hyd-BOT-9 Vill.]

MAYA PRAKASHI, Dy. Secy.